

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)



ath a

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking) An integrated Engineering and Construction Company

IRCON/SECY/STEX/124	4
---------------------	---

IRCON/SECY/STEX/124	12 ^m April, 2021				
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited				
Listing Dept./ Dept. of Corporate Services	Listing Department				
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, Plot no. C/I, G Block				
Dalal Street	Bandra –Kurla Complex,				
Mumbai – 400001	Bandra (East) Mumbai – 400051				
बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड				
लिस्टिंग विभाग / कॉर्पोरेट सेवा विभाग	लिस्टिंग विभाग				
पी. जे. टावर्स,	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं सी / आई, जी ब्लॉक,				
दलाल स्ट्रीट,	बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,				
मुंबई— 400001	बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051				
Scrip code / ID: 541956 / IRCON	Scrip Code: IRCON				

Sub: Newspaper Publication of Notice of Postal Ballot/ पोस्टल बैलट की सूचना का समाचार पत्र पकाशन

Dear Sir/ Madam, महोदय / महोदया,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Copy of Notice of Postal Ballot of Ircon International Limited as published in the newspapers (in English and Hindi) are enclosed herewith for your information and record.

Please take note of above information on record.

सेबी (सचिबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पोस्टल बैलट के नोटिस की कॉपी जिसे अखबारों (अंग्रेजी और हिंदी में) में प्रकाशित किया गया है, आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न हैं।

कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड पर लें।

धन्यवाद. भवदीया कृते **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**

16abluge (रित अरोडा) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता क्र.: FCS 5270



पंजीकृत कार्यालय : सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017, भारत Registered. Office : C-4, District Centre, Saket, New Delhi - 110017, INDIA Tel.: +91-11-29565666 Fax: +91-11-26854000, 26522000 | E-mail: info@ircon.org Web: www.ircon.org CIN: L45203DL1976GOI008171



3

NATION

FINANCIAL EXPRESS

'FREEING LIMITED RESOURCES' Govt likely to hike FDI limit in pension sector to 74%

Bill likely in monsoon session

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, April 11

THE GOVERNMENT MAY hike foreign direct investment (FDI) limit in the pension sector to 74% and a Bill in this regard is expected to come in the next Parliament session, according to sources.

Last month, Parliament approved a Bill to increase FDI limit in the insurance sector from 49% to 74%. The Insurance Act, 1938, was last amended in 2015 which raised FDI limit to 49%, resulting in foreign capital inflow of ₹26,000 crore in the last five years.

Amendment to Pension

COOCH BEHAR KILLINGS



0 Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013 seeking to raise FDI limit in the pension sector may come in the monsoon session orwinter session depending on

various approvals, sources said. Currently, the FDI in the pension fund is capped at 49%.Besides, sources said, the amendment Bill may contain separation of NPS Trust from the PFRDA.

The powers, functions and

duties of the NPS Trust, which are currently laid down under the PFRDA (National Pension System Trust) Regulations 2015, may come under a charitable trust or the Companies Act, they said.

The intent behind this is to keep NPS Trust separate from the pension regulator and managed competent board of 15 members. Of this, the majority of members are likely to be from the government as they, including states, are the biggest contributor to the corpus.

The PFRDA was established for promoting and ensuring the orderly growth of the pension sector with sufficient powers over pension funds, the central recordkeeping agency and other intermediaries. It also safeguards the interest of members.

The National Pension System (NPS) was introduced by the Government of India to replace the defined benefit pension system. NPS was made mandatory for all new recruits to the central government service from January 1, 2004, ing week. SBI MF has already (except the armed forces in the distributed ₹9,122 crore to investors as directed by the first stage) and has also been rolled out for all citizens with Supreme Court earlier. effect from May 1, 2009, on

voluntary basis. The government had made a conscious move to shift from the defined benefit, pay-asyou-go pension scheme to defined contribution pension scheme, NPS, due to rising and unsustainable pension bill. The transition aimed at freeing the limited resources of the government for more productive and socio-economic sectoral development.

Franklin unitholders to get ₹2,962 crore in second tranche

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, April 11

ing the next tranche of ₹2,962

The payment will be made electronically to all eligible SBI FUNDS MANAGEMENT unitholders by SBI MF, which has been appointed as the liq-(SBI MF) will distribute the next tranche of ₹2,962 crore to uidator for the schemes under unitholders of Franklin Temwinding up by the Supreme pleton Mutual Fund's six shut-Court. tered schemes during the com-

April 9, he added.

In case the unitholders' bank account is not eligible for an electronic payment, a cheque or demand draft will be issued and sent to their registered address by SBI MF.

"SBI MF would be distribut-In March, the Supreme crore to unitholders across all six Court accepted the standard operating procedure (SOP) schemes. The payment to all investors whose accounts are finalised by SBI MF to mone-KYC-compliant with all details tise assets and distribute the available will be made during proceeds to unitholders of the six debt schemes of Franklin the week of April 12, 2021," a Franklin Templeton MF Templeton Mutual Fund.

Franklin Templeton MF spokesperson said on Sunday. The amount to be paid to shut its six debt mutual fund unitholders will be paid by schemes in April 2020 citing redemption pressures and lack extinguishing proportionate units at the net asset value dated of liquidity in the bond market.



For details login to website http://www.pesb.gov.in

	PUBLIC AN (Under Regulation 6 of the Insol (Insolvency Resolution Process for FOR THE ATTENTION M/sANSAL LOTUS MELANC	ORM A INOUNCEMENT vency and Bankruptcy Board of India Corporate Persons) Regulations, 2016) NOF THE CREDITORS OF SE PROJECTS PRIVATE LIMITED PARTICULARS
		And the second of the second se
1	Name of corporate debtor	M/s Ansal Lotus Melange Projects Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	29/04/2005
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC-Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45201DL2005PTC135601
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	4648/21, Room No.302 Third Floor Shadumal Building, Daryaganj New Delhi Central Delhi-110002
6.	Insolvency commencement date in	07/04/2021 (Orders passed in IB-85 (ND)/2021. Orders received on 09/04/2021
7.	respect of corporate debtor Estimated date of closure of insolvency resolution process	04/10/2021(Being 180 days from the date of Insolvency Commencement date)
8.		Name - Mr. Devendra Umrao Registration No. ; IBBI/IPA-003/IP- N00223/2019-20/12640
9.	Address and E-mail of the Interim Resolution Professional, as registered with the Board	B- 43A, First Floor, Kalkaji, New Delhi-110019 E-mail : dev.umrao@gmail.com
10.	Address and E-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	107, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road- New Delhi-110001 E-mail- cirpansal@gmail.com
11	Last date for submission of claims	23/04/2021
	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Home-Buyers under the Real Estate
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	 Mr. Debashish Nanda (IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316 Mr. Ashish Singh (IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-18/11230 Mr. Navneet Kakkar (IBBI/IPA-001/IP-P01731/2019-2020/12765
14	(a) Relevant forms (b)Details of authorized representatives are available at:	 (a) Web link https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) 1. Mr Debashish Nanda CS-14, C-Floor, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad Uttar Pradesh -201010 E-mail ID:- dnanda.cma@gmail.com 2. Mr. Ashish Singh Add:-811, 8th Floor, Aggarwal Millenium Tower 1, Netaji Subhase Place, Pitampura, New Delhi-11003 E-mail Id:- Isaadvocates@gmail.com 3.Mr. Navneet Kakkar Add:- SCO 145, 2nd Floor, above ICICI Bank Sector, 28-D, Chandigarh 160002 E-mail ID:- kakkarchd@rediffmail.com

Ready to resign only if people of Bengal ask me to do so: Shah

PRESS TRUST OF INDIA Basirhat (West Bengal), April 11

UNION HOME MINISTER Amit Shah on Sunday said that he is ready to resign from his post only if the people of West Bengal ask him to do so. The senior BJP leader, however, asserted that Chief Miniscounted on May 2. ter Mamata Banerjee will have Banerjee, Shah alleged that to quit on May 2 as the Trinamool Congress will lose the she is opposing the Citizenship (Amendment) Act to ongoing assembly elections. The TMC chief has appease illegal immigrants, demanded Shah's resignation who he claimed take benefits over the killing of four people in of welfare schemes but firing by CISF personnel during indulge in riots. the fourth phase of voting in Sitalkuchi in Cooch Behar district on Saturday. "Didi has been asking for my resignation. If the people of West Bengal demand that I put down my papers, I am ready to do so with my head bowed. But Mamata will have to quit the but indulge in riots," he said. CM"s post on May 2," Shah said, while addressing a rally in Basirhat in North 24 Parganas district.



Training his guns on

EC trying to suppress facts by barring entry of politicians in Sitalkuchi, says Mamata

PRESS TRUST OF INDIA Siliguri, April 11

DESCRIBING THE INCIDENT of firing in Cooch Beharas a"geno-

as it seeks to "suppress facts".

addressing a press meet here,



FPIs pull out ₹929 cr from Indian mkts so far in April

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, April 11

FOREIGN PORTFOLIO **INVESTORS** (FPIs) have withdrawn a net ₹929 crore from Indian markets so far this month amid concerns over rising Covid-19 cases denting the

US dollar. "In the monetary policy meet, there was surprise announcement of G-Sec buying of ₹1 lakh cr by RBI in Q1FY22. The assurance of G-Sec buying has led to a significant depreciation in INR, which has moved from 72.4 to

Indian rupee compared with

Votes polled in the eightphase elections to 294 assembly seats in West Bengal will be

India should cherish 'current positive trend' of de-escalation in eastern Ladakh: Chinese military

state.

KJMVARMA Beijing, April 11

WITH NO FORWARD move-

ment at the latest round of Sino-India military talks on disengagement from the remaining areas in eastern Ladakh, the Chinese military has said that India should cherish the "current positive trend" of de-escalation and cooling down of tensions in the border area.

A day after the 11th round of Corps Commander-level talks that lasted for 13 hours, the Indian Army said in a statement on Saturday that both sides held a detailed delibera-



reached in the previous talks, the state-run China Global Television Network on Sunday quoted the press release by a PLA spokes person on the talks held at the Chushul border point on the Indian side of the Line of Actual Control

(LAC) in eastern Ladakh. "We hope the Indian side could cherish the current positive trend of de-escala-

to handle situations. Since the The TMC supremo, while first phase of elections, I had been saying that a section of the claimed that central forces central forces are committing "sprayed bullets aiming at the atrocities on people. I had flagged the issue in Nandigram, torso of the victims" in Sitalkuchiarea, when the fourth but none paid attention to my words," she stated.

The feisty TMC chief also spoke to the brother of one of the deceased over a video call, in the midst of the press meet, and promised all help to the bereaved family. The man, on his part, was heard saying that the jawans had opened fire on the voters.

"He (one of the four killed in firing) was standing in a queue when the jawans opened fire. His wife is pregnant. They also have a three-year-old child. Our parents are shocked and devastated," the man told the CM.

IRCON INTERNATIONAL LIMITED A Govt. of India Undertaking 57471 Regd. Off.: C-4, District Centre, Saket, New Delhi- 110017, INDIA Tel. No.: +91-11-29565666 Fax: +91-11-26854000, Web: www.ircon.org, E-mail: investors@ircon.org CIN: L45203DL1976GOI008171

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E-VOTING TO THE MEMBERS

Notice is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), Secretarial Standard - 2 issued by the Institute in Company Secretaries of India, the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" on 8" April, 2020, 13" April, 2020, 15" June, 2020, 28" September, 2020 and 31" December 2020 ("MCA Circulars") and other applicable laws and regulations, if any, Ircon International Limited ("the Company") has sent the Postal Ballot Notice ("Notice") to issue fully paid-up Bonus Shares on 11" April, 2021 by e-mail to all the Members, whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e Friday, 9" April, 2021 and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic noidings with the Depositories through the concerned Depository Participants and in respect o physical holdings with Kfin Technologies Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agen of the Company (RTA/KFintech).

The Notice is also available at Company's website: www.ircon.org under the section INVESTORS and on the website of RTA viz. https://evoting.kfintech.com and at the website of RTA viz. Stock Exchange i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). The hard copy of the Notice along with Postal Ballot forms and pre-paid business envelope have not be sent to the Members in accordance with the requirements specified under the MCA Circulars. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members on this Posta Ballot would take place through remote e-voting only.

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with Depositories/ RTA for receiving all communication. Those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get the same registered by following the procedure given below:

- Those shareholders who have registered/not registered their mail address and mobile numbers including address may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form; and with the Company's RTA, KFintech in case the shares held in physical form.
- Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Notice of

economic recovery.

The reversal of buying trend came after FPIs invested ₹17.304 crore in March, ₹23,663 crore in February and ₹14,649 crore in January.

According to the depositories data, overseas investors pulled out ₹740 crore from equities and ₹189 crore from the debt segment, taking the total net withdrawal between April 1-9 to ₹929 crore.

Rusmik Oza, executive vicepresident, head of fundamental research at Kotak Securities, said FPI outflows came on the back of rise in Covid cases and a sharper depreciation in the

74.8,"he said. He further noted that other emerging markets have slowly started getting FPI flows in a "miniscule way".

South Korea and Taiwan are leading the inflows into emerging markets for this month to date, Oza said. Strong year-onyear increase in fourth quarter earnings season is expected across all sectors with high growth in automobiles, banks, metals, mining and oil and gas industries, Oza said. The likely strong earnings growth could restrict any major downside in the market going ahead. It is going to be a mixed reaction from FPIs in the near term.

otice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-III, has ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process against M/s Ansal Lotus Melange Projects Private Limited, w.r.t. IB-85(ND)/2021, on 07/04/2021 (orders received on 09/04/2021). The creditors of M/sAnsal Lotus Melange Projects Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 23/04/2021 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No 10. The claims may be submitted in the specified Forms B.C. CA.D. E& F in terms of Regulations 7,8 8A,9 and 9A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 by the Operational Creditors, Financial Creditors, Claims by Creditors in a class, Workmen or Employees, Authorized Representatives of group of Workmen and Employees, and other creditors respectively, as the case may be. The financial creditors shall submit their faims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person y post or by electronic means. A Financial Creditor, belonging to a class, as listed against the entry No.12, shall indicate its choice of Authorised Representative from among the three Insolvency Professionals listed against entry No.13 to act as Authonised Representative of the class [Creditors under Clause (b) sub-section (6A) of Section 21) in Form CA. Submissions of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Devendra Umrac

Interim Resolution Professiona

Ansal Lotus Melange Projects Private Limited under CIRP BBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640



Date: 12/04/2021

Place: New Delhi

IDFC FIRST Bank Limited

CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: KRM Tower, 7th Floor, No. 1, Harrington Road, Chetpet, Chennai 600 031. Corporate Office: Naman Chambers, C-32, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051. Toll Free No.: 1800 266 0404; E-mail ID: ig@idfcfirstbank.com; Website: www.idfcfirstbank.com

Fifth Advertisement ATTENTION BONDHOLDERS OF Tranches 1, 2 & 3 (FY'11) - Long Term Infrastructure Bonds ('LTIBs') **REDEMPTION/MATURITY NOTICE**

Dear Bondholders.

- 1. This advertisement is with reference to redemption of Long Term Infrastructure Bonds Tranche 1, 2 & 3, issued by IDFC Limited during financial year 2010-11 ('LTIBs').
- 2. We have already released four public notice advertisements on March 13, March 14 to 16, March 20 to 23, and March 31, 2021 for the benefit of Bondholders explaining the procedure for receiving the proceeds of bond redemptions, for those Bondholders whose bank account details are not updated with us. This advertisement is the fifth in the series of such advertisements.
- 3. For Bondholders whose bank accounts were available in the records of our Registrar & Transfer Agent ('RTA') KFin Technologies Private Limited ('KFin'), redemption proceeds have already been credited electronically on maturity dates* of aforesaid LTIBs. *[Tranche 1: 12-Nov-20, Tranche 2: 21-Feb-21 and Tranche 3: 30-Mar-21]

"What is Didi's problem if phase of polling was underway Matuas get citizenship? Her in the state."There was genocide problem is that illegal immiat Sitalkuchi. I would like to visit grants will be displeased. Such Sitalkuchi by April 14. The EC is people don't have the right to trying to suppress facts by restrule the state any longer. Illegal ricting entry in Cooch Behar.We immigrants take benefits of have an incompetent home miwelfare schemes like free ration nister and an incompetent cen-

tral government,"Banerjee said. Shah said that the BJP will Four persons died on Saturcompletely stop illegal immiday when CISF personnel gration from Bangladesh and opened fire allegedly after comwithdraw a resolution passed in ing under attack from locals, the assembly against CAA after who "attempted to snatch their forming the government in the rifles", the police had said.

"The CISF doesn"t know how

tion on the disengagement of troops in the remaining friction points of Hot Springs, Gogra and Depsang in eastern Ladakh and agreed to jointly maintain stability on the ground, avoid any new incidents and resolve the outstanding issues in an "expeditious manner".

There was no visible forward movement at the latest round of military talks between the two countries as the Chinese delegation came to the talks with a "premeditated mindset" and did not show any flexibility in moving forward on the disengagement process at the remaining friction points in eastern Ladakh, people familiar with the negotiations said in New Delhi on Saturday.

In its press release on the latest round of talks between two militaries held on April 9, China's People's Liberation Army (PLA) said India should cherish the de-escalation and cooling in the border area, in an apparent reference to the disengagement of troops from the most contentious area of the Pangong Lake in February.

Both sides should also adhere to the consensus



tion and cooling in the border area, adhere to the relevant agreements between the two armies and the consensus of the previous talks and move towards the same direction as the Chinese side to jointly maintain peace and tranquility in the border area," a spokesperson for the

Western Theater Command of the People"s Liberation Army (PLA) said in a statement.

The Indian Army statement said it was highlighted at the talks that completion of disengagement in other areas would pave the way for considering"de-escalation of forces" and ensure full restoration of peace and tranquillity in the region.

The Indian delegation, led by Commander of the Lehbased 14 Corps Lt Gen PGK Menon, particularly insisted on resolving outstanding issues in Hot Springs, Gogra and Depsang."The two sides had a detailed exchange of views for the resolution of the remaining issues related to disengagement along the LAC

in eastern Ladakh," the Indian —PTI Army said.

Postal Ballot could not be serviced. Shareholders may temporarily get their email address and mobile number provided with the Company's RTA, KFintech, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email registration/ for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the Notice of Postal Ballot and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com. i) Alternatively, member may send an e-mail request at the email ic einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter

providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Notice of Postal Ballot and the e-voting instructions.

n compliance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, SS-2 and the provisions of the MCA Circulars, the Company is providing facility for voting by e-voting to all the Members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice. For this purpose, the Company has engaged the services of its RTAi.e. KFintech'

Members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, 9" April, 2021 will be considered for the purpose of voting and each Member's voting rights shall be in proportion to his/ her share of the paid-up equity share capital of the Company. The person who is not a member of the Company as on the said cut-off date will not be entitled to vote and should treat this Notice, for information purpose only.

All the Members are therefore hereby informed that:

Place : New Delhi

Date : 11* April, 2021

- Remote e-voting period will commence on Monday 12" April, 2021 at 9:00 Hours (IST) and ends on Tuesday, 11" May, 2021 at 17:00 Hours (IST)
- Mr. Sachin Agarwal, Practicing Company Secretary (Membership No. F5774), partner, and failing him Ms. Anuradha, Jain, Practising Company Secretary (Membership No. A36639) of M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, have been appointed as Scrutinizer for conducting the e- voting process in accordance with the law in fair and transparent manner.
- For any gueries/ grievances, pertaining to e-voting, Members may visit Help & FAQ's section available at KFintech website https://evoting.kfintech.com and in case of any other query, Members are requested to contact Shri S. V. Raju, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 at the designated e-mail id: einward.ris@KFintech.com or at following telephone number. No. 040 67162222. 18003454001 (Toll free) and Fax No. 040 23420814

Resolutions passed by the Members through postal ballot are deemed to have been passed as it hey have been passed at a General Meeting of the Members. The results of the voting by Postal Baliot will be announced on or before Thursday, 13" May, 2021. The results of the Postal Ballot will be posted on the website of the Company at www.ircon.org and on RTA E-voting website at https://evoting.kfintech.com and will also be communicated to the Stock Exchanges i.e NSE & BSE.

For Ircon International Limited Ritu Arora **Company Secretary & Compliance Officer**

- 4. For Bondholders whose permanent residence address was registered but bank account details were not updated with KFin, Demand Drafts / Physical Warrants have been issued and despatched via speed-post / courier on respective maturity dates.
- 5. The Bank is keen to ensure immediate credit of redemption proceeds to Bondholders of Tranche 1, 2 & 3.
- 6. There may be cases where Bondholders current residential address may not have been updated with KFin, or there may be COVID 19 related restriction on delivery, or inaccessibility by Courier/ Speed-post. Thus, few Bondholders may not have received Physical Warrants / Demand Drafts. For such Bondholders, we have proactively introduced a simple process that enables them to update their bank details online.
- 7. In case you have not received your Physical Warrants/Demand Drafts, please visit the following link to update your bank account details at the earliest:
 - Log-in to KFin's system at: (i) https://ris.kfintech.com/clientservices/bonds/bankmandate/bankmandate.aspx
 - Once the web-page is launched, please enter relevant credentials for validation, followed by (ii) updated bank records.
 - (iii) Alternatively, please send an email to KFin at **einward.ris@kfintech.com** mentioning the Folio number, Bondholder's operational bank account number, scanned copy of cancelled cheque and copy of PAN card.
 - The web-link can also be accessed on our website www.idfcfirstbank.com (iv)
 - For any escalations, write to ig@idfcfirstbank.com (v)
- Please help us in providing the necessary details so that we can credit your accounts immediately. 8. Thank you for your kind co-operation and support.

Place: Mumbai Date: April 09, 2021

For IDFC FIRST Bank Limited Satish Gaikwad Head – Legal & Company Secretary











खबरों में शहर

दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर : केजरीवाल

अस्पतालों में भीड़ हुई तो होगी पूर्णबंदी



उन्होंने कहा–मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोविड– 19 के 65 फीसद मरीज 45 साल से कम आयु के हैं। कोरोना वायरस कैसे रुकेगा जब 65 फीसद लोग 45 साल से कम आयु के हैं जिनके लिए टीका उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठकों में दो– तीन मुख्यमंत्रियों ने टीकाकरण पर लागू पाबंदियां हटाने का अनुरोध किया था। हमारी सरकार लोगों को घर जाकर टीका लगाने के लिए तैयार है । विशेषज्ञों ने कहा है कि टीका लगाने 🕺 ही अस्पताल जाएं । के बाद लोग बीमार हो सकते हैं लेकिन गंभीर नहीं।

- अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

नियंत्रण में रहती है तो दिल्ली में पूर्णबंदी लगाने की जरूरत नहीं पडेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 दिनों में मामले बहत तेजी से बढ़े हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। दिल्ली में 11 नवंबर 2020 को सबसे

'मैं लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं हं। मेरा मानना है कि लॉकडाउन कोविड-19 से निपटने का समाधान नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि संक्रमित होने पर अस्पतालों में जाने के बजाय घर पर

पथकवास में रहें और गंभीर मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर खाली रखे जाएं। केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों

से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह वक्त राजनीति करने या एक-दुसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। केजरीवाल ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों तथा एनजीओ से भी कोरोना के खिलाफ योगदान देने की अपील की।

की मदद लें और बहुत जरूरी होने पर

विद्यालय पुरम, नई दिल्ली-110022,

संपर्क सूत्र : 011-26175262 संविदा आधारित तात्कालिक साक्षात्कार हेत्

संविदा अनुबंध आधार पर इस विद्यालय में अंशकालिक शिक्षण कार्य हेतु सत्र 2021–22 का पैनल बनाने के लिए तात्कालिक साक्षात्कार 26, 27 – 28 अप्रैल, 2021 को होगा। इच्छक अभ्यर्थी अपना आवदेन पत्र (छाया चित्र के साथ), शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यता तथा अनुभव के मल प्रमाण–पत्र एवं प्रत्येक की स्वसत्यापित प्रतिलिपि के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित हो। दिनांक, आवेदन पत्र और अपडेटेंड सूचना हेतु हमारी वेबसाईट https://rkpuramsec2.kvs.ac.in पर जाएं या विद्यालय सूचना पट्ट देखें। योग्यता / अर्हता संबंधी जानकारी के लिए वेक्साईट www.kvsangathan.nic.in पर जाएं कोविड —19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक है । अवधेश दुवे

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने रविवार को भंगेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर कोरोना टीकाकरण महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक महोत्सव होगा। इस दौरान जिले के सभी केंद्रों पर लक्षित 45 वर्ष एवं उससे अधिक के आय वाले अधिक 8,593 मामले सामने आए थे।

नागरिकों को कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने टीका लगवाने और मास्क पहनने की अपील की। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक ओहरी उपस्थित रहे। वहीं, प्राधिकरण सैनेटाइजेशन 12 से 17 अप्रैल तक सभी कंटेनमेंट जोन में करेगा।

मौसम

तापमान

अधिकतम-39.6 डि.से.

न्यूनतम- 21.0 डि.से.

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, ११ अप्रैल।

नई दिल्ली

नोएडा में टीकाकरण महोत्सव की शुरुआत

जनसत्ता, नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021 3

सूर्योदय- 05:59

सूर्यास्त- 18:45



इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम) पंजी, कार्यालय : सी-4 डिसिट्रक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 (भारत) दरमाय : +91-11-29565666 फेक्स : +91-11-26854000. वेबसाइट : www.ircon.org ईमेल : info@ircon.org CIN- L45203DL1976GOI008171

पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग की सूचना

रतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम. 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावचानों, यदि कोई हो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 किसी साविधिक संशोधन(नी) या तत्समय लाग उसके नअंधिनियमनों), भारत कम्पनी सचिवीय संस्थान द्वारा निर्गत सचिवीय मानक–2, तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय

द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जुन, 2020, 28 सितम्बर, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020

गरिषत्रों ("एमसीए परिपत्र") तथा अन्य प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों, यदि कोई हो के अनुसार इरकान इंटरनेशनल

लिमिटेड ("कम्पनी") ने उन समी सदस्यों के पास जिनके नाम **कट--ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 9 अप्रैल, 2021** तक

सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक

गरिता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदारों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक धारिता के

गरिप्रेक्य में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते यहां हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि बहत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें।

केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर पिछली लहर से ज्यादा खतरनाक है। सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। महज कुछ हफ्तों पहले 16 फरवरी को ही दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के 100 से कम मामले आए थे। उन्होंने कहा कि यह इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में पूर्णबंदी नहीं

लगाना चाहती लेकिन अगर अस्पतालों में

नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

उत्तरी निगम के महापौर जय प्रकाश ने रविवार को टीका उत्सव के मद्देनजर बाड़ा हिंदू राव क्षेत्र में लाला दुली चंद पॉली क्लीनिक का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि रविवार को उत्तरी निगम ने अपने स्वास्थ्य संस्थानों में एक लाख

रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री कोरोना की जांच कराते हुए।

उत्तरी निगम ने पार किया एक लाख टीका लगाने का लक्ष्य जनसत्ता संवाददाता

उस दिन में शहर में इस महामारी से 131 लोगों की मौत हई थी जो अभी तक एक दिन में मरने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। केजरीवाल ने कहा कि

पूर्णबंदी लगाना नहीं चाहते, लेकिन इसमें सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। अस्पताल में बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए ऐप

टाका लगान आए लागा का किया सम्मान जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

प्रधानमंत्री के आहवान पर मनाए जा रहे 'टीका उत्सव' के अंतर्गत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रविवार को बदरपुर बॉर्डर पर निगम अस्पताल में टीकाकरण के लिए आए लोगों का स्वागत किया। इन लोगों को फल-जूस के साथ-साथ मास्क भी दिया गया ताकि टीकाकरण के बाद भी एहतियात बरती जाए। इस अवसर पर दक्षिण की मेयर अनामिका सिंह, दक्षिण दिल्ली जिला भाजपा अध्यक्ष रोहतास कुमार, वकील और पूर्व जिलाध्यक्ष मिथिलेश सिंह भी उपस्थित रहे।

टीकाकरण सभी के लिए जत्तरी है : लेखी जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने मोहम्मदपुर गांव, मुनिरका में रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और सरोजनीनगर के चरक पालिका हॉस्पिटल में टीकाकरण पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने एसडीएमसी डिस्पेंसरी, मुनिरका और चरक पालिका अस्पताल में टीकाकरण केंद्रों का भी दौरा किया। लेखी ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर शुरू होने वाला टीका महोत्सव 14 अप्रैल को बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती तक जारी रहेगा। लेखी ने यह भी कहा कि हमें शून्य टीका अपव्यय सुनिश्चित करना चाहिए और टीकाकरण क्षमता का इष्टतम उपयोग होना चाहिए। वायु प्रदूषण विषय पर होगां व्याख्यान जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

जनसत्ता संवाददाता

दिल्ली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद मामलों को लेकर निशाना साधा है।

पूर्णबंदी को लेकर

अपनी राय स्पष्ट करें

मुख्यमंत्री : कांग्रेस

फैला रहा है और मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि राजधानी में बीते दिनों से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली में भ्रम भी फैल रहा है कि फिर से राजधानी में पूर्णबंदी हो सकती है। भ्रम ना फैले और दिल्लीवासियों की रोजी-रोटी पर असर नहीं पड़े इसके लिए मुख्यमंत्री को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

जनसत्ता संवाददाता

भीड़ बढ़ गई और गंभीर रूप से बीमार

मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं रहे

मिलता है और अस्पतालों की स्थिति

उन्होंने कहा-अगर आपका सहयोग

राघव ने सभी के

लिए टीका शुरू

कराने की अपील की

तो पूर्णबंदी लगाई जा सकती है।

युवा भारत के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय केजरीवाल पर राजधानी में बढ़ते कोरोना के राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचित विधायक राघव चड्डा ने रविहार को प्रधानमंत्री को पत्र कांग्रेस का कहना है कि कोरोना अपना पैर लिखकर दिल्ली में सभी उम्र वर्ग को कोरोना टीका शुरू कराने की अपील की। उन्होंने देश के नागरिकों को प्राथमिकता देने की बजाय अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्राथमिकता देने का आरोप भी लगाया है।

> प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में चड्ढा ने कहा है कि –युवा भारत के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निर्वाचित विधायक के नाते मैं, कोरोना टीके के गंभीर विषय पर आपको यह पत्र लिख रहा हुं।



जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 अप्रैल।

नजफगढ़-नांगलोई रोड पर शनिवार देर रात जांच के लिए रोकने पर चालक ने एक नागरिक सुरक्षा कर्मी पर टुक चढ़ा दिया। आरोपी भागने की कोशिश में टुक में फंसे घायल को 1500 मीटर तक घसीटता रहा और फिर फरार हो गया। घायल 27 वर्षीय पुनीत गुप्ता को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद पीसीआर ने टुक चालक देवेंद्र सिंह का पीछा कर उसे ढिचाऊं गांव के पास दबोच लिया। बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर पुनीत के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीणा के मुताबिक पुनीत परिवार के साथ गणेश नगर कॉम्पलेक्स पांडव नगर, पूर्वी दिल्ली में रहता था। वर्तमान में उसकी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के साथ चल रही थी। ट्रांसपोर्ट विभाग के एसआई रवींद्र शर्मा ने

चालक भागने की कोशिश में टूक में फंसे घायल कर्मी को 1500 मीटर तक घसीटता रहा और फरार हो गया

गुप्ता ने उसे जांच के लिए रुकने का इशारा किया। टुक चालक ने पुनीत को देखने के बाद रफ्तार बढ़ा दी। आरोपी ने पुनीत को टक्कर मारी और उसके ऊपर ट्रक चढा दिया। इससे पुनीत टुक के अगले हिस्से में फंस गया।

मौके पर मौजद टीम जैसे ही पुनीत को बचाने के लिए ट्रक की ओर दौड़ी, आरोपी ने टक की रफ्तार बढा दी। पनीत टक में ही फंसा रहा और करीब 1500 मीटर तक घिसटता रहा। दूर जाने के बाद पुनीत ट्रक से नीचे गिर गया और ट्रक चालक फरार हो गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंची, जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों ने टुक चालक का पीछा किया और उसे ढिचाऊं गांव के पास

प्राचार्य सार्वजनिक उद्घोषण [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन ८ के अंतर्गत मै. अंसल लोटस मेलांगे प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ निगमित/पंजीकत दिल्ली सेन्टल दिल्ली–11000 07.04.2021 होने की ति प्राप्त की गई) 04.10.2021 (जो दिवाला शरू बी-43 ए. प्रथम तल. ई-मेलः dev.umrao@gmail.com प्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार वे नई दिल्ली हाउस, 27. बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली लिये प्रयक्त होने वाला पता तथा ईमेल ई-मेलः cirpansal@gmail.com 23.04.202 होम बायर्स रीयल ईस्टेट पॉजेक्ट के अंतर्गत-वर्ग में वित्तीय केडीटरों हो. धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरि प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये 2 श्री आशीष सिंह इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग 18/11230) तीन नाम श्री नवनीत कक्कड़ (IBBI/IPA-001/1P-P01731/2019 2020/12765 क) वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (क) संबंधित प्रपत्र तथ (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध ख) 1. श्री देबाशीष नंदा, सीएस-14, सी-तल, अंसल प्लाजा, वैशाल प्रदेश-201010. ईमेलः dnanda.cma@gmail.com . श्री आशीष सिंह, पताः 811, 8वाँ तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034, ईमेल आईडी saadvocates@gmail.com . श्री नवनीत कक्कड, पताः एससीओ 145, 2रा तल, आईसीआईसीआ बैंक के ऊपर, सेक्टर-28 डी, चंडीगढ़-160002 ईमेल आईडी एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, पीठ III ने 07.04.2021 (आदेश 09.04.202 को प्राप्त हुई) को IB-85 (ND)/2021 के संदर्भ में मै. अंसल लोटस मेलांगे प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये कॉर्पोरे दिवाला पुस्ताव पुकिया शरू करने का आदेश दिया है। एतददारा मैं, अंसल लोटस मेलांगे पॉजेक्टस पाईवेट लिमिटेड के केडीट को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव कर्मी के पास 23.04.2021 को र उससे पर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें। ये दावे जैसा भी मामला हो, ऑपरेशनल केडीटरों, वित्तीय केडीटरों, किस वर्ग में क्रेडीटरों द्वारा दावे. कर्मियों अथवा कर्मचारियों, कर्मियों तथा कर्मचारियों के ग्रुप के प्राधिकृत प्रतिनिधियों तथा क्रमश अन्य क्रेडीटरों द्वारा भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन

जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 12.04.2021

स्थानः नई दिल्ली

(आरटीए / केफिनटेक) के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत कराए हैं, को पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए ई—मेल द्वारा 11 अप्रैल, 2021 को पोस्टल बैलट सूचना ("सूचना") भेज दी है । यह सुचना कम्पनी की वेबसाइट www.ircon.org पर INVESTORS खण्ड के तहत तथा आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा प्रीपेढ बिजिनेस लिफाफे सहित सूचना की हार्ड कॉपी एमसीए परिपत्रों के तहत निर्दिष्ट वांछनीयताओं के अनुसार सदस्यों के पास नहीं भेजी जायेगी। तदनुसार, इस पोस्टल बैलट की सहमति या असहमति सम्बन्धी संचार केवल रिमोट ई—बोटिंग के माध्यम से सम्पन्न होंगे। जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई—मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं ये समस्त सुचनाओं की प्राप्ति हेतु कृपया डेपॉजिटरी /आरटीए के साथ इसे पंजीकत करा लें। जिन शेयरवारकों ने अब तक अपने ई—मेल पते पंजीकत नहीं कराए हैं वे कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन कर इसे पंजीकृत करा लें जिन शेयरधारकों ने पते सहित अपने ई-मेल पते पंजीकृत / पंजीकृत नहीं कराए हैं वे कृपया इलेक्ट्रॉनिक धारिता के मामले में अपने डिपॉजिटरी भागीदार के साथ तथा भौतिक प्रारूप के मामले में कम्पनी के आरटीए केफिनटेक से सम्पर्क करें और अपने दिवरणों का सत्यापन / अपडेट करा लें | (ii) जिन शेयरवारकों ने अपने ई--मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और परिणामस्वरूप चन्हें पोस्टल बैलट की सूचना नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे शेयरधारक इसे प्राप्त करने के लिए https://ris.kfintech.com/email_registration/ पर विलक करके कम्पनी के आरटीए केफिनटेक के साथ प्रावधानित अपने ई—मेल पते तथा मोबाइल नम्बर अख्यायी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। युजर आईडी तथा पासवर्ड सहित पोस्टल बैलट की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश भेजने हेतु ई--मेल पते तथा मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के लिए यथानिर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करने का निवेदन किया जाता है। किसी पुछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं। (iii) वैकल्पिक रूप से सदस्य पोस्टल बैलट की सूचना तथा ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई--मेल पते, मोबाइल नम्बर, पैन एवं क्लाइंट मास्टर की स्वप्रमाणित स्कॅन्ड प्रति के साथ तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल निवेदन भेज सकते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 तथा अन्य लाग, प्रावधान, यदि कोई हो एवं इनके तहत निर्मित नियमों के साथ पठित, सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44, एसएस–2 तथा एमसीए के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालना में कंपनी, सभी सदस्यों को इं--वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सर्क। इस कार्य के लिए, कंपनी ने अपनी आरटीए अर्थात केफिनटेक को सेवा प्रदान करने हेत् अनुबंधित किया है। जेन सदस्यों के नाम **शुक्रवार, 9 अप्रैल, 2021** तक सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल उन्हें मतदान के उददेश्य से विचार किया जायेगा और प्रत्येक सदस्य का मताधिकार कम्पनी की इक्विटी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उसके अनुपात में होगा। जो सदस्य कट—ऑफ तिथि तक कम्पनी का सदस्य नहीं है वह मतदान का पात्र नहीं होगा और उसे इसे केवल सूचना के उददेश्य से लेना चाहिए। अतः सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 12 अप्रैल, 2021 को 9.00 बजे (भा.मा.स.) पर प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 11 मई, 2021 को 17:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। कानून के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदशी डंग से मतदान संचालित करने के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएटस कम्पनी सचिव के श्री सचिन अग्रवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं, एफ5774), साझेदार तथा उनकी अनुपरिवर्ति में सुश्री अनुराधा जैन, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. ए36639) को संवीक्षक के क्तप में नियुक्त किया गया है। ई--वोटिंग से सम्बन्धित किसी पुछताछ/शिकायत के लिए सदस्य केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध हेल्प एण्ड एफएक्यू खण्ड देख सकते हैं और किसी अन्य पछताछ के मामले में सदस्य कृपया श्री एस.वी. राजु, उप महाप्रबन्धक, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,

संलेनियम, टॉबर बी, प्लॉट 31-32, गांचीबावली फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 2016 के विनियमन 7, 8, 8 ए, 9 तथा 9 ए के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रपत्रों बी, सी, सी ए, डी, ई एवं एफ में जमा किये ज से निर्दिष्ट ई-मेल पते einward.ris@KFintech.com या दूरमाप नं : 040 67162222, 18003454001 सकते हैं। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य (टोल फ्री) तथा फ़ैक्स नं, 040 23420814 पर सम्पर्क कर सकते हैं सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। प्रविष्ठि गेस्टल बैलट के माध्यम से सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव माना जायेगा कि वे सदस्यों की आम सभा में पारित किए गये सं. 12 के समक्ष यथा सुचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप हैं। पोस्टल बैलट द्वारा सम्पन्न मतदान के परिणामों की घोषणा **ब्रहस्पतिवार, 13 मई, 2021** को या इससे पूर्व की कार्य करने के लिये धारा 21 की उप-धारा (6ए) के क्लॉज बी के अंतर्गत क्रेडीटर्स) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सुचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जायेगी। पोस्टल बैलट के परिणाम कन्पनी की वेबसाइट www.ircon.org तथा आरटीए ई--वोटिंग की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर पोस्ट किए जायेंगे तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेजों अर्थात एनएसई और अंतरिम प्रस्ताव कर्म

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
हरता./- रितु अरोडा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



देवेन्द्र उमर

सीआईआरपी के अधी

अंसल लोटस मेलांगे प्रॉजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड

IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/1264

	केजरीवाल सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से 'ऑनलाइन राउंड टेबल कांफ्रेंस' आयोजित करेगी। ' 2021 की सर्दियों की शुरुआत से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय' विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 12 और 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा।	पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह अपने साथियों एएसआइ अशोक कुमार, हेडकांस्टेबल प्रवीण, कांस्टेबल अनील राणा, महेंद्र सिंह और नागरिक सुरक्षा संगठन कर्मी पुनीत गुप्ता के साथ रात आठ बजे से सुबह चार बजे तक नजफगढ़-नांगलोई रोड पर थे। शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। पुनीत केशवपुरम वार्ड ढलाव मुक्त हुआ, र	पुलिसकर्मियों ने पुनीत को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची बाबा हरिदास नगर थाना पुलिस ने पुनित के परिजनों को हादसे की सूचना दी और ट्रांसपोर्ट विभाग के एसआई के बयान पर केस दर्ज कर आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया।	(अधिनिज चूंकि, हार प्रवर्तन अ 60 दिनों उ सूचना जा	हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 3 के साथ प यम) की धारा 13 (2) के अधीन। ऊसिंग डवेल्पमेंट फाईनेंस कारपोरेशन लि. (एचडीएफसी लिमिटे धिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नि के भीतर संबंधित मांग सूचना में वर्णित राशि की अदायगी हेतु f री की गई है। अधोहस्ताक्षरी ने यह सूचनाएं कथित ऋणियों/कानू	शन" 6 मील, जी.एस. समा। फोन नं.: (036 मार्गा न दे गए वित्तीय परिसंपत्तिय ड) के प्राधिकृत अधिकारी वे नेयम 3 के साथ पढ़े गए अपि निम्ननिर्दिष्ट ऋणियों/कानूनी व नी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधिये	रोड, 6 मील, विपरीत 3 1) 7101800, वेबः WW सूचना गें के पुनः निर्माण एवं प्रति तीर पर अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय प्रतियम 13 (12) के अधीन शति ारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को आज ं के उनके ज्ञात पतों के परिसरों प	मसम एग्रीकल्चर ऑफिस, ww.hdfc.com भूतिकरण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन उ । परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण अं कयों के निर्वहन में निम्न विवरण अनुसार संबंधित नंत्रित करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 (र भी चिपकाई हैं। कथित सूचनाओं की प्रतियां अध्	ौर प्रतिभूति हित के सूचना की तिथि से 2) के अधीन मांग धोहस्ताक्षरी के पास
Statt 14-14 फ 4-ftil सद्द ये ये कर स्वयुरम क्षेत्र के निगम पार्षद योगेश कुमार वर्मा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि उनका वार्ड-75, अशोक विहार-केशवपुरम क्षेत्र अब पूरी तरह से ढलाव मुक्त हो गया है। वर्मा ने बताया कि अशोक विहार- केशवपुरम क्षेत्र के निवासियों के लिए यह गर्व के यहां का कूड़ा सीधे उपयोग में लाया जाएग। केशवपुरम क्षेत्र के निवासियों के लिए यह गर्व के पुस्तकाल य व मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे * अवयर्ग एवं/अथवा उगाही की तिथि तक आगामी ब्याज @18% वार्षिक लगू अनुसार, आकसिमक खर्चे, लगत, प्रभार आदि उपार्जित। * अवयर्ग एवं/अथवा उगाही की तिथि तक आगामी ब्याज @18% वार्षिक लगू अनुसार, आकसिमक खर्चे, लगत, प्रभार आदि उपार्जित। * अवयर्ग एवं/अथवा उगाही की तिथि तक आगामी ब्याज @18% वार्षिक लगू अनुसार, आकसिमक खर्चे, लगत, प्रभार आदि उपार्जित। * अवयर्ग एवं/अथवा उगाही की तिथि तक आगामी ब्याज @18% वार्षिक लगू अनुसार, एचडीएफसी लिमिटेड को अदायगी करने में असफल होंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड कथित अधिनियम की धारा 13 • पहि कथित ऋणियं/कानूनी प्रतिभिधियों उक्त कथित अनुसार एचडीएफसी लिमिटेड को अदायगी करने में असफल होंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड कथित अधिनियम की धारा 13 • वर्मा क क्रिंग वार्ड -75, अशोक विहार- केशव पुरा तरह से ढलाव मुक्त हो गया है। वर्मा ने बताया कि अशोक विहार- के रावपुरम क्षेत्र के तिक के संचालित होने से बदं कर नए 'कॉम्पेकटर' मशीन लगाई गई है । 'कॉम्पेक्टर' मशीन के संचालित होने से कहे हाऊसिंग डवेल्पमेंट फाईनेंस कारपोरेशन ह./- क	जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 11 अप्रैल।	छिले में नहीं डिलावों व कूड़ निगम की थोर से	पड़ेगा कूड़ा आ घरों की खाली जगह का उपयोग कर	उक्त के स है के साथ में निम्न व पर, निम्न ऋणियों/क क्र.सं .	iबंध में, फिर से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित ऋणियों/ य पढ़ी गई अदायगी तथा/अथवा उगाही की तिथि तक कॉलम (स ार्णित राशि की अदायगी हेतु इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 लिखित प्रतिभूतित परिसंपत्तियां कथित ऋणियों क्रमशः द्वारा एचडी जनूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों का प्रतिभूतित परिसंपत्तियों की ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम (बी) श्री सुनील शर्मा	(कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनि सी) में निम्न वर्णित संबंधित) दिनों के भीतर एचडीएफसी)एफसी लिमिटेड को रेहन क एवज में उपलब्ध समय के स कुल बकाया राशि (सी) 28.02.2021 को	धियों को ऋण अनुबंध तथा अन्य तिथियों से कथित मांग सूचना में लिमिटेड को अदायगी करने हेतु हैं। बंध में अधिनियम की धारा 13 मांग सूचना की तिथि (डी)	। दस्तावेज/लेखन, यदि कोई कथित ऋणियों द्वारा नि वर्णित अनुसार आगामी ब्याज @18% वार्षिक के सूचित किया जाता है। ऋण की बकाया अदायगी हं की उपधारा (8) के प्रावधानों से ध्यान आमंत्रित नि प्रतिभूतित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों (ई) फ्लैट नं. एफ–1, प्रथम तल, क्रेडल होम्स–	नेष्पादित किया गया साथ संबंधित नामों हेतु प्रतिभूति के तौर केया जाता है। का विवरण I, प्लॉट नं. 40
का विषय है कि उनका क्षेत्र ढलाव मुक्त बंद किए गए ढलावों-कूड़ा घरों की जगह पर उत्तरी निगम के महापौर जयप्रकाश, होकर एक आदर्श वार्ड के रूप में परिवर्तित का उपयोग निगम की ओर से लोगों की जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया के साथ बड़ी हो रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड के अंदर सुविधा के लिए बच्चों व बुजुर्गों के लिए संख्या में क्षेत्रीय निवासी भी मौजूद रहे।	क्षेत्र के निगम पार्षद योगेश कुमार वर्मों ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि उनका वार्ड-75, अशोक विहार-केशवपुरम क्षेत्र अब पूरी तरह से ढलाव मुक्त हो गया है। वर्मा ने बताया कि अशोक विहार- केशवपुरम क्षेत्र के निवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि उनका क्षेत्र ढलाव मुक्त होकर एक आदर्श वार्ड के रूप में परिवर्तित	के पुस्तक चार ढलाव थे, जहां पूर्व में तीन ढलावों को बंद कर नए 'कॉम्पेक्टर' मशीन लगा दिए गए थे और रविवार को चौथे ढलाव घर को भी बंद कर नई 'कॉम्पेक्टर' मशीन लगाई गई है। बंद किए गए ढलावों-कूड़ा घरों की जगह का उपयोग निगम की ओर से लोगों की	ालय व मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे पुस्तकालय व मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। नई 'कॉम्पेक्टर' मशीन के संचालित होने से यहां का कूड़ा सीधे उपयोग में लाया जाएगा। 'कॉम्पेक्टर' मशीन के उद्घाटन के अवसर पर उत्तरी निगम के महापौर जयप्रकाश, जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया के साथ बड़ी	यदि कथि लागू पूर्ण कथित ऋ लिमिटेड अथवा उल् स्थान :	त ऋणियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों उक्त कथित अनुस नियमों के अधीन लागतों एवं जोखिम पर उक्त प्रतिभूतित परिसंप णियों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त कथित प्रतिभूति की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, लीज अथवा अन्य के स ल्लंघन करेगा तो वह अधिनियम के अधीन प्रदान अनुसार सजा र जयपुर 12.04.2021 पंजीकृत कार्यालय : रेमन हाऊस, प	ार एचडीएफसी लिमिटेड को तियों/अचल संपत्तियों के विर त परिसंपत्तियों/अचल संपत्तिर ाथ सभी से प्रतिबंधित किया तथा/अथवा दंड के लिए जिग एचटी पारेख मार्ग	अदायगी करने में असफल होंगे रुद्ध कार्यवाही करेगा। गें को हस्तांतरित करने हेतु कथित जाता है। कोई व्यक्ति जो अधिनिय मेदार होगा। , 169, बैकबे रिक्ले	तो एचडीएफसी लिमिटेड कथित अधिनियम की भ अधिनियमों के अधीन प्रतिबंधित किया जाता है, ज म अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्राव कृते हाऊसिंग डवेल्पमेंट फाईनेंस क प्र मेशन, चर्च गेट, मुंबई-4000	जबकि एचडीएफसी धानों की अवहेलना ारपोरेशन लिमिटेड ह.⁄- दीप्ता दत्ता ाधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com